



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 फाल्गुन 1945 (श0)
(सं0 पटना 177) पटना, शुक्रवार, 01 मार्च 2024

योजना एवं विकास विभाग

अधिसूचना
28 फरवरी 2024

सं० यो0स्था04/1-01/2024-1312/यो0वि0—बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 79 दिनांक 09.01.2024 द्वारा 67वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों में से शेष निम्न 04 अभ्यर्थियों को बिहार योजना सेवा के अंतर्गत सहायक योजना पदाधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर पे लेवल-9 (₹53100-167800) में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ परीक्ष्यमान सहायक योजना पदाधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

क्र0	नाम	अनुक्रमांक	पिता का नाम	जन्म तिथि	स्थायी पता	आरक्षण कोटि	मेधा क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री निशांत कुमार	137633	श्री शिवकांत झा	06.01.1995	ग्राम+पो0—जसौलीपट्टी, थाना—कोटवा, जिला—पूर्वी चम्पारण, बिहार, पिन—845437	अनारक्षित (श्रवण दिव्यांग)	52
2	श्री खगेश रंजन	225599	श्री सतीश कुमार सिंह	10.08.1995	ग्राम—लगमा, पो0—जे0 लगमा, थाना—सिंधिया, जिला—समस्तीपुर, बिहार, पिन—848208	अनारक्षित (आर्थिक रूप से पिछड़ा)	17
3	श्री दीपक कान्त बोस	402627	श्री हरेन्द्र कुमार	09.08.1994	ग्राम—न्यू करमन टोला आरा, बस स्टैंड के निकट, पो0—आरा नवादा, जिला—भोजपुर, बिहार, पिन—802301	अनुसूचित जाति	44
4	श्री प्रशांत कुमार सिंह	604461	श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह	30.06.1991	क्वाटर नं0— डी0-6/6, सचिवालय कॉलोनी, हिनू, राँची (झारखंड), पिन— 834002	अनारक्षित	15

2. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्र/अभिलेख के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में आपकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं आपके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

3. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली-2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.2005 एवं संकल्प संख्या 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार सभी पदाधिकारियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

4. अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के उपरांत उनके संबंध में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

5. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने जाने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

6. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रविश किशोर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 177-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>